



FIROZABAD POLICE

“ सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा ”



थाना रामगढ पुलिस/साइबर सैल की संयुक्त कार्यवाही में कोविड-19 टीकाकरण की वेबसाइट का पासवर्ड चोरी कर फर्जी कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र बनाने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में ।

दिनांक 16.11.2021 को वादी श्री डा0 नगेन्द्र माहेश्वरी प्रभारी चिकित्साधिकारी सैलई UPHC फिरोजाबाद द्वारा थाना उपस्थित आकर कोविड-19 की फर्जी आइडी चलाकर टीकाकरण किये जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 607/21 धारा 420 भादवि पंजीकृत कराया था जिस पर संज्ञान लेते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद फिरोजाबाद के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना रामगढ पुलिस/साइबर सैल टीम को घटना का त्वरित अनावरण कर उक्त अपराध कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था जिसके क्रम में थाना रामगढ एवं साइबर सैल पुलिस द्वारा गहन पतारशी सुरागरशी करते हुये कोविड-19 के टीकाकरण का फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाले अभियुक्त को उसकी दुकान से मय लैपटाप व अपराध से सम्बन्धित करीब 43 कोविड टीकाकरण के प्रमाण पत्र तथा कोविड पोर्टल पर लॉगिन होने सम्बन्धी दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार किया गया तथा अभियोग में धारा 66C/72A IT Act की बढोत्तरी कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त से पूछताछ का विवरण

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरा दोस्त अरुण पुत्र ध्रुव सिंह निवासी नगला मिर्जा ठेका के सामने पड़े खाली प्लाट के बराबर वाली गली थाना रामगढ जनपद फिरोजाबाद संविदा पर CMO कार्यालय फिरोजाबाद में नौकरी करता है तथा उसके पिता भी वही गाड़ी चलाते हैं। यह कोविड-19 टीकाकरण में लगी ANM का आईडी व पासवर्ड चुरा लिया है और मैं उसके साथ मिलकर अपने इस लैपटाप से उक्त आइडी में लॉगिन होकर तत्कालिक जरूरतमंद लोगों को बिना टीका लगवाये पोर्टल पर नाम चढ़ा देते हैं और उनको टीकाकरण का सर्टिफिकेट दे देते हैं। इसके एवज में 300 से 500 रुपये तक प्राप्त हो जाते हैं।

नाम पता गिरफ्तारशुदा अभियुक्त -

1. मुबीन पुत्र कमरुद्दीन निवासी थाना रामगढ के पास दीदामई थाना रामगढ फिरोजाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।

वांछित अभियुक्त:-

अरुण पुत्र ध्रुव सिंह निवासी नगला मिर्जा ठेका के सामने पड़े खाली प्लाट के बराबर वाली गली थाना रामगढ जनपद फिरोजाबाद।

आपराधिक इतिहास:-

607/2021 धारा 420 भादवि व 66C/72A IT Act.

बरामदगी:-

1 अदद लैपटाप व 43 कोविड टीकाकरण के प्रमाण पत्र तथा कोविड पोर्टल पर लॉगिन होने सम्बन्धी दस्तावेज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. एसओ हरवेन्द्र मिश्रा प्रभारी थाना रामगढ फिरोजाबाद ।
2. उ0नि0 घीसाराम थाना रामगढ फिरोजाबाद ।
3. उ0नि0 विक्रान्त तौमर साइबर सैल फिरोजाबाद ।
4. हे0का0 737 राजकुमार, 5.का0 1330 योगेन्द्र सिंह थाना रामगढ फिरोजाबाद 6.का अमित उपाध्याय साइबर सैल ।